



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 1977/आषाढ़ 15, 1899

No. 290]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 1977/ASADHA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July 1977

S.O. 533(E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Tamil Nadu to elect, in accordance with the provisions of the said Act and rules and orders made thereunder, six members to fill the seats of the members of the Council of States who retire on the 21st April, 1976, on the expiration of their term of office.

(No. F.13(6)/77-Leg. II)

E. VENKATESWARAN, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 6 जुलाई, 1977

का. आ. 533(अ).—राष्ट्रपति, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, तमिलनाडु राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा

(2271)

करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के अधीन उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में, राज्य सभा के उन सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर, 2 अप्रैल, 1976 को निवृत्त हुए थे, स्थानों को भरने के लिए छह सदस्यों का निर्वाचन कर ले।

[सं. फा. 13(6) 77-वि-2]

ई. वेंकटेश्वरन, संयुक्त सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th July 1977

S.O. 534(E).—Whereas the President has by a notification published in the Gazette of India, on the 6th July, 1977, called upon the elected members of the Tamil Nadu Legislative Assembly to elect six members to the Council of States;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints with respect to the said election—

- (a) 13 July, 1977 (Wednesday), as the date for making nominations;
- (b) 14 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 16 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 23 July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 25 July, 1977 (Monday), as the date before which election shall be completed.

[No 318/TN/77(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1977

का० आ० 534 (अ).—भारत के राजपत्र में तारीख 6 जुलाई, 1977 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति ने तमिलनाडु राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से राज्य सभा के लिए छह सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा की है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन के बारे में:—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 13 जुलाई, 1977 (बुधवार),
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 14 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 16 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो 23 जुलाई, 1977 (शनिवार); तथा मतदान होगा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त 25 जुलाई, 1977 (सोमवार) कर दिया जाएगा

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 318/त०ना०/77(1)]

S.O. 535(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a. m. to 3.00 p. m. as the hours during which the poll shall, if necessary be taken at the biennial election to the Council of States in the State of Tamil Nadu to be held in pursuance of the notification under section 12 of the said Act, published in the Gazette of India on the 6th July, 1977.

[No 318/TN/77(2)]

का० आ० 535 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में तारीख 6 जुलाई, 1977 को प्रकाशित उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन अधिसूचना के अनुसरण में, तमिलनाडु राज्य में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विर्वाषिक निर्वाचन के लिए 10 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो भवदान होगा।

[सं० 318/त०ना०/77(2)]

S.O. 536(E)—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Tamil Nadu hereby designates the Secretary Legislative Assembly Department, Tamil Nadu, as the Returning Officer for the biennial elections to the Council of States to be held in the State of Tamil Nadu in pursuance of the notification under section 12 of the said Act published in the Gazette of India on the 6th July, 1977.

[No. 318/TN/77(3)]

का० आ० 536 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग तमिलनाडु राज्य सरकार के परामर्श से, भारत के राजपत्र में तारीख 6 जुलाई, 1977 को प्रकाशित उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन अधिसूचना के अनुसरण में, तमिलनाडु राज्य में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विर्वाषिक निर्वाचन के लिए सचिव, विधान सभा विभाग, तमिलनाडु को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 318/त०ना०/77(3)]

S.O. 537(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Deputy Secretary, Legislative Assembly Department, Tamil Nadu, to assist the Returning Officer in the performance of his functions for the biennial elections to the Council of States to be held in pursuance of the notification under section 12 of the said Act, published in the Gazette of India on the 6th July, 1977.

[No. 318/TN/77(4)]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

का० आ० 537 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते निर्वाचन आयोग, भारत के राजपत्र में तारीख

6 जुलाई, 1977 को प्रकाशित उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन अधिसूचना के अनुसरण से, राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए डा. सचिव, विधानसभा विभाग, तमिलनाडु को एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

[सं० 318 तं० ना०/77(4)]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977